

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन के पहले एन्वायरनमेंटल जशन और ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी में शामिल हों

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 अप्रैल, 2022) – अर्थ मंथ (Earth Month) के हिस्से के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अर्थ डे वीकेंड को अपने पहले एन्वायरनमेंटल जशन (Environmental Celebration) और ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी (Grow Green Awards Ceremony) की मेजबानी कर रही है।

एन्वायरनमेंटल जशन और ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी, शनिवार, 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक, 170 क्लार्क बुलेवार्ड (170 Clark Boulevard) में स्थित, नोर्टन प्लेस पार्क (Norton Place Park) में होगी।

यह मुफ्त कार्यक्रम पब्लिक के लिए खुला है और इसमें पर्यावरण के थीम वाले कम्युनिटी फेयर के हिस्से के तौर पर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के विभागों, लोकल कम्युनिटी ग्रुपों और गैर-लाभ संगठनों को, नेचर वॉक्स और ट्रेजर हंट जैसी गतिविधियों, और किडज़ ज़ोन को पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम की हिमायत, ब्रैम्पटन एन्वायरनमेंटल एडवाइजरी कमेटी (Brampton Environmental Advisory Committee) और ब्रैम्पटन एन्वायरनमेंटल अलाइंस (Brampton Environmental Alliance) के द्वारा की गई है।

ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी सुबह 11:30 बजे होगी। इसमें उन शानदार व्यक्तियों और संगठनों का जशन मनाया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने एन्वायरनमेंटल लीडरशिप दर्शाई है और एक स्वस्थ, स्थिर तथा मजबूत ब्रैम्पटन बनाने के लिए, हमारे कुदरती और निर्मित पर्यावरणों के संरक्षण, उनमें वृद्धि और संतुलन बिठाने के, ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन विजन (Grow Green Vision) में योगदान दिया है।

ग्रो ग्रीन अवॉर्ड्स को उदारतापूर्वक, अर्गो डिवेलपमेंट कार्पोरेशन (ARGO Development Corporation) के द्वारा प्रायोजित (स्पांसर) किया गया है।

इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। [www.brampton.ca/earthmonth](http://www.brampton.ca/earthmonth) पर अधिक जानकारी पाएं और रजिस्टर करें।

ग्रीन सिटी (Green City) होने के तौर पर, ब्रैम्पटन, स्थिरता प्रयासों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी ग्रीन पहलकदमियों के बारे में, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर अधिक जानकारी पाएं।

### लिंक

- [कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस रिडक्शन प्लान \(Community Energy and Emissions Reduction Plan\)](#)

- [सेंटर फॉर कम्युनिटी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन \(Centre for Community Energy Transformation\)](#)
- [पार्कलैंड डेडिकेशन स्ट्रैटजी \(Parkland Dedication Strategy\)](#)
- [अर्बन फोरेस्ट मैनेजमेंट प्लान \(Urban Forest Management Plan\)](#)
- [वन मिलियन पेड़ \(One Million Trees\)](#)
- [इलेक्ट्रिक बस डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ट्रायल \(Electric Bus Demonstration and Integration Trial\)](#)

## हवाले

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और मैं, हमारे पहले एन्वायरनमेंटल जशन और गो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी के लिए उत्साहित हूँ। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हमारे स्थिर शहर और हर उस व्यक्ति को उजागर करता है और उसका जशन मनाता है, जो इसे ऐसा बनाने में मदद करता है। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि 23 अप्रैल को, नोर्टन प्लेस पार्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हों।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“यह काउंसिल हमारे शहर को हरा-भरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन के पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, चैट करने और लोकल संगठनों के साथ भागीदारी के लिए, आउटडोर आनंद लेने और उनका जशन मनाने के लिए, जो हर रोज हमारे पर्यावरण में बदलाव लाते हैं, एन्वायरनमेंटल जशन और गो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी में शामिल हों।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग; रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“अपने परिवार और दोस्तों को, हमारे पहले एन्वायरनमेंटल जशन और गो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी में लेकर आएं। हम, ब्रैम्पटन में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस निकालियों को, 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के सफर पर हैं और निवासी हमारे शहर को साफ-हरा-भरा रखने और अधिक स्थिर भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं।”

- *डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; मेम्बर, एन्वायरनमेंट एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इस बारे में निवासियों को सूचित रखने के लिए समर्पित है कि हम किस तरह स्थिरता में सुधार और पर्यावरण संबंधी स्टैंडर्ड्स में वृद्धि कर रहे हैं। एन्वायरनमेंटल जशन और गो ग्रीन अवॉर्ड्स सेरेमनी में आएं और जानकारी तथा जशन से भरपूर और ग्रीन शनिवार का आनंद लें।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।



## Media Release

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रॅम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)